



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 31, 2014/माघ 11, 1935

No. 50]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 31, 2014/MAGHA 11, 1935

गृह मंत्रालय

(पुलिस-II प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2014

सा.का.नि. 72(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 25 की उप-धारा (2) के खंड (क) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2009 को जहाँ तक उसका संबंध कांस्टेबल के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में कांस्टेबल के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, कांस्टेबल (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2014 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—पद संख्या, उसका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा अन्य अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है,
या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की भाक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और वेतन वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
कांस्टेबल	99 * (2013) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसूचितविवीय	वेतन बैंड-1, (5200-20200 रु.) और ग्रेड वेतन- 2000 रु.	लागू नहीं होता।	आयु 18 और 23 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 पैंतीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1 :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो —असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2 :- कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक कर्मचारी चयन आयोग से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
7	8	9
<p>(1) शैक्षिक अर्हता :- किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य।</p> <p>(2) न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नानुसार हैं :</p> <p>(क) ऊँचाई— पुरुषों के लिए — 170 सें0 मी0 और महिलाओं के लिए— 157 सें0 मी0।</p> <p>(ख) छाती—पुरुषों के लिए — बिना फुलाए—80 सें0 मी0, फुलाकर— न्यूनतम 5 सें0 मी0 का फैलाव</p> <p>टिप्पण— महिला अभ्यर्थियों के लिए छाती के माप की कोई न्यूनतम अपेक्षा नहीं है।</p> <p>(ग) वजन— पुरुषों और महिलाओं के लिए—चिकित्सा मानक के अनुसार वजन और आयु के आनुपातिक</p> <p>(3) चिकित्सा मानक :</p> <p>(क) सुधार के बिना अर्थात् चश्मा पहने बिना दोनों आखें न्यूनतम दूर दृष्टि 6/6 और 6/9 हो।</p> <p>(ख) अभ्यर्थियों को संहत जानु, चपटा पोंव, फूली हुई नसें या भैंगी आँखों वाला नहीं होना चाहिए और वे रंग नेत्रहीन न हों। उन्हें अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का और ऐसे शारीरिक रूप से मुक्त होना चाहिए जिसमें उनके कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण पालन में बाधा आने की संभावना हो।</p> <p>(4) शिथिलीकरण :</p> <p>(क) ऊँचाई—</p> <p>(i) गढ़वाली, कुमाउंनी, डोगरा, मराठा की श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों और असम, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू-कश्मीर राज्यों से संबंधित पुरुष अभ्यर्थियों के लिए</p>	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

<p>न्यूनतम ऊँचाई 165 सें0 मी0 और महिला अभ्यर्थियों के लिए 155 सें0 मी0 होगी। अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सभी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 162.5 सें0 मी0 और महिला अभ्यर्थियों के लिए 150 सें0 मी0 होगी।</p> <p>(ii) अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के पूर्वोत्तर राज्यों से आने वाले अभ्यर्थियों और दार्जिलिंग जिले के तीन उप प्रभाग अर्थात् दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और कुर्सीओंग में समाविष्ट गोरखा राज्य क्षेत्रीय प्रशासन से आने वाले अभ्यर्थियों और इन जिलों के "मौजाज" उपखंड में निम्नलिखित सम्मिलित है :- (1) लोहागढ़ चाय बगान (2) लोहागढ़ वन (3) रंगमोहन (4) बाराचेंगा (5) पानीघटा (6) छोटा अदलपुर (7) पहरू (8) सुकना वन (9) सुकना भाग-I, (10) पंटापटी वन भाग-I, (11) महानदी वन (12) चंपासरी वन (13) सलबारी छत भाग-II, (14) सिटोंग वन (15) सिवोक पर्वतीय वन (16) सिवोक वन (17) छोटा चेंगा (18) निपानिया के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 162.5 सें0 मी0 और महिला अभ्यर्थियों के लिए 152.5 सें0 मी0 होगी।</p> <p>(iii) अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के पूर्वोत्तर राज्यों से और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों से आने वाले सभी अनुसूचित जनजातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 160 सें0 मी0 और महिला अभ्यर्थियों के लिए 147.5 सें0 मी0 होगी।</p> <p>(ख) छाती-</p> <p>(i) गढ़वाली, कुमाऊँनी, डोगरा, मराठा प्रवर्ग में आने वाले पुरुष अभ्यर्थियों की और असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर राज्यों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम छाती 78 सें0 मी0 (न्यूनतम फैलाव 5 सें0 मी0) होगी। अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सभी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम छाती 76 सें0 मी0 (न्यूनतम फैलाव 5 सें0 मी0) होगी।</p> <p>(ii) अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा के पूर्वोत्तर राज्यों से आने वाले और गोरखा राज्य क्षेत्रीय प्रशासन (पैरा-4 (क) (ii) में यथावर्णित) के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम छाती बिना फुलाए 77 सें0 मी0 (न्यूनतम फैलाव 5 सें0 मी0 सहित) होगी।</p> <p>(5) शिथिल करने की शक्ति:- महानिदेशक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के पास अनुकंपा नियुक्ति की दशा में निम्नलिखित पैरामीटर वालों को शिथिल करने की शक्ति है :-</p> <p>(क) ऊँचाई - 5 सें0 मी0।</p> <p>(ख) छाती - 3 सें0 मी0।</p> <p>(ग) वजन - 5 कि0 ग्रा0 (+ -)।</p> <p>(घ) ऊपरी आयु सीमा- दो वर्ष।</p> <p>टिप्पण- अन्य गुणात्मक अपेक्षाएँ अर्थात् शारीरिक और चिकित्सा मानक गृह मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में कांस्टेबल के पद के लिए भर्ती की स्कीम के अनुसार होंगी।</p>	
--	--

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जायेगा।
10	11
<p>(i) 40 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p>(ii) 60 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा।</p>	<p>प्रतिनियुक्ति या आमेलन : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे पदधारियों में से जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं और जिनके पास अन्वेषण या आसूचना या कम्प्यूटर अथवा चालन के क्षेत्र में पाँच वर्ष का अनुभव है।</p> <p>टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उसके जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह</p>

	लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जायेगी।
--	---

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
12	13
<p>पुष्टि के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति:—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. पुलिस अधीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण— अध्यक्ष 2. अपर पुलिस अधीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण— सदस्य 3. उप पुलिस अधीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण— सदस्य 	लागू नहीं होता।

[फा. सं० ई-46/01/कांस्टेबल-भर्ती/एन.आई.ए./2013]

हरिश चंद्र, उप-सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(POLICE-II DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2014

G.S.R. 72(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 read with clause (a) of sub-section (2) of section 25 of National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), and in supersession of the Ministry of Home Affairs, National Investigation Agency (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2009, in so far as they relate to the post of Constable, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Constable in the National Investigation Agency, Ministry of Home Affairs, namely:—

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, National Investigation Agency, Constable (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and pay band, grade pay or pay scale. – The number of posts, its classification and the pay band, grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in the columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc. – The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person,–

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Constable.	99* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band – 1, (Rs 5200-20200) and grade pay of Rs 2000.	Not applicable.	Between 18 and 23 years of age. (relaxable for departmental candidates up to 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Mizoram, Manipur, Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. Note 2: In the case of recruitment made through the Staff Selection Commission, the crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(1) Educational qualification:- Matriculation or equivalent from a recognised Board.	Not applicable.	Two years for direct recruitment.	(i) 40% by direct recruitment. (ii) 60% by deputation / absorption	Deputation / Absorption: From amongst officials of the Central Government	Group – 'C' Departmental Promotion Committee for confirmation:- 1.	Not applicable.

<p>(2) Should possess minimum Physical standard as under:</p> <p>(a) Height – for Males – 170 cms. and for Females – 157 cms.</p> <p>(b) Chest- for males – Unexpanded – 80 cms., expanded – minimum expansion 5 cms.</p> <p>Note:- There shall be no minimum requirement of chest measurement for female candidates.</p> <p>(c) Weight: - For males and females – Proportionate to height and age as per medical standards.</p> <p>(3) Medical standards:</p> <p>(a) Eye-sight: Minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction i.e. without wearing of glasses.</p> <p>(b) The candidates must not suffer from knock knee, flat foot, varicose veins or squint in the eyes and they should not be colour blind. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect which may likely to interfere with the efficient performance of the duties.</p>				<p>or State Governments or Union territories holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department having five years experience in the field of investigation or intelligence or computer or driving.</p> <p>Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years’.</p> <p>Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 3: For the purpose of appointment on deputation, the service rendered on a</p>	<p>Superintendent of Police, National Investigation Agency —Chairman.</p> <p>2. Additional Superintendent of Police, National Investigation Agency — Member</p> <p>3. Deputy Superintendent of Police, National Investigation Agency — Member</p>	
--	--	--	--	---	---	--

<p>(4) Relaxation:</p> <p>(a) Height:-</p> <p>(i) The minimum height of candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Assam, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir shall be 165 cms. for males and 155 cms. for females. The minimum height for all candidates belonging to the Scheduled Tribes shall be 162.5 cms. for males and 150 cms. for females;</p> <p>(ii) The minimum height shall be 162.5 cms. for males and 152.5 cms for females for candidates hailing from the North-Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura and candidates hailing from Gorkha Territorial Administration comprising of the three Sub-Divisions of Darjeeling District namely, Darjeeling, Kalimpong and Kurseong and includes the following "Mouzas" Sub-Division of these Districts:-</p>				<p>regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendation of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>		
---	--	--	--	---	--	--

<p>(1) Lohagarh Tea Garden (2) Lohagarh Forest (3) Rangmohan (4) Barachenga (5) Panighata (6) Chota Adalpur (7) Paharu (8) Sukna Forest (9) Sukna Part-1 (10) Pantapati Forest-1 (11) Mahanadi Forest (12) Champasari Forest (13) Salbari Chhatpart-II (14) Sitong Forest (15) Sivoke Hill Forest (16) Sivoke Forest (17) Chhota Chenga (18) Nipania.</p> <p>(iii) The minimum height for all the Scheduled Tribe candidates hailing from the North-Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura and Left Wing Extremism affected districts shall be 160 cms. for males and 147.5 cms. for females.</p> <p>(b) Chest:-</p> <p>(i) The minimum chest of male candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Assam, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir shall be 78 cms. (minimum 5 cms. expansion).</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>The minimum chest for all male candidates belonging to the Scheduled Tribes shall be 76 cms (minimum 5 cms expansion).</p> <p>(ii) The minimum chest of male candidates hailing from North-Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura and Gorkha Territorial Administration {as mentioned in paragraph 4 (a) (ii)} shall be 77 cms unexpanded (with minimum 5 cms expansion).</p> <p>(5) Power of Relaxation:</p> <p>The Director General, National Investigation Agency has power to relax the following parameters in cases of compassionate appointment :-</p> <p>(a) Height – 5 cms</p> <p>(b) Chest - 3 cms</p> <p>(c) Weight – 5 Kgs (+-)</p> <p>(d) Upper age limit – two years.</p> <p>Note- Other qualitative requirements i.e. physical and medical</p>						
---	--	--	--	--	--	--

standards will be as per the scheme of recruitment for the post of Constable in Central Armed Police Forces and Assam Rifles through Staff Selection Commission issued by Ministry of Home Affairs from time to time.						
---	--	--	--	--	--	--

[F. No. E-46/01/Ct-Recdt/NIA/2013]

HARISH CHANDER, Dy. Secy.